

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
जनपद- उत्तरकाशी

पत्रांक संख्या- AY/24/2025-26

दिनांक- 15/05/2025

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

01. आवेदक का नाम- डॉ० रश्मि ध्यानी
02. पिता/पति का नाम- श्री अभिवेक ध्यानी
03. पदनाम- चिकित्सा अधिनारी
04. नियुक्ति का प्रकार- स्थायी
05. वर्तमान तैनाती का स्थान- आयुष्मान आरोग्य मंदिर देवी उत्तरकाशी
06. वर्तमान तैनाती की तिथि- 09/02/2024
07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण-

क्र० सं०	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.	<u>आयुष्मान आरोग्य मंदिर देवी उत्तरकाशी</u>	<u>09/02/2024</u>	<u>वर्तमान तक दुर्गम</u>	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं- (कोई भी एक विकल्प चुनें)

- ☐ सुगम से दुर्गम
 ☒ अनुरोध
 ☐ दुर्गम से सुगम
 ☐ स्थानान्तरण से छूट
 ☐ स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ वरिष्ठ कार्मिक
 ☐ दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
 ☐ गंभीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक
 ☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
 ☐ अर्धसैनिक/सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ गंभीर रोग
☐ मानसिक
☐ पुत्र/पुत्री
☐ उत्तराखण्ड
☐ विधुर/विधवा/
 ग्रस्त/विकलांग
 रूप से
 की
 सरकार में
 कार्यरत
 पति-पत्नी
 तलाकशुदा/वरिष्ठ
 कार्मिक
 बच्चों के
 माता-पिता
☒ दुर्गम से दुर्गम
☐ सुगम से
 दुर्गम

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय इलाहाबाद देहरादून	दुर्गम
2	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुवा उत्तराखण्ड	दुर्गम
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या-

(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

(नोट- ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाईट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

हस्ताक्षर- Rashmi
 नाम- डा० राक्ष्मी ध्यानी
 पदनाम- चिकित्साधिकारी